

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 22—अप्रैल 28, 2017 (वैशाख 2, 1939)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 22— APRIL 28, 2017 (VAISAKHA 2, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2017

रक्षा (एम एस)

सं. 54, दिनांक 6 फरवरी 2017—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जनवरी, 2017 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

प्रधान अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

आई सी-35471एम जनरल बिपिन रावत, उ.यु.से.मे., अ.वि.से.मे., यु.से.मे., से.मे., वि.से.मे., पैदल सेना

आई सी-30351के जनरल दलबीर सिंह, प.वि.से.मे., उ.यु.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे., पैदल सेना

(सेवानिवृत्त) के स्थान पर

रेवती रमन, अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 55, दिनांक 7 फरवरी 2017—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 08 जून 2013 से)

निम्नलिखित दो कैडेट्स जो कि 132 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 08 जून 2013 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 77934एक्स शैलेन्द्र सिंह कुशवाह (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 77933पी बलवन्त सिंह (इन्फैन्ट्री) के नीचे तथा आई सी संख्या 78009एफ सुनील कुमार बेहेरा (सिग्नल्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78008वाई भारतेन्दु कुमार (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(ले. के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से)

निम्नलिखित 363 कैडिटों को जो की 138 नियमित पाठ्यक्रम (92 डाईरेक्ट एन्ट्री, 232 एक्स एन डी ए तथा 39 एक्स ए सी सी) के सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से तथा इनमें से पांच जीसी एन/46407 (आई सी 81543के) निखिल मनचन्दा, एन/46216 (आई सी 81744एच) विवेक यादव, एन/46170 (आई सी 81795 डब्ल्यू) प्रवीन चहल, एन/46454 (आई सी 81805पी) ध्रुव डागर, तथा एन/46435 (आई सी 81870पी) अक्षय सिंह, है जो आयोग के समय एल एम सी थे। शेष—1 होने के बाद एन/46170 (आई सी 81795 डब्ल्यू) प्रवीन चहल, एन/46435 (आई सी 81870पी) अक्षय सिंह, एन/46407 (आई सी 81543के) निखिल मनचन्दा, एन/46216 (आई सी 81744एच) विवेक यादव तथा एन/46454 (आई सी 81805पी) ध्रुव डागर दिनांक 16 जून 2016, 17 जून 2016, 22 जून 2016, 05 जुलाई 2016 तथा 06 सितम्बर 2016 पूर्वाह्न से क्रमशः, सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी) यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है:—

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
81498	एच अमन ढाका	एसी
81500	पी राजेन्द्र सिंह बिष्ट	इन्फैन्ट्री
81501	एक्स विकास तेजी	एसी
81502	ए मृणाल कुमार	इन्फैन्ट्री
81504	एल अभिषेक कुमार सिन्हा	आर्टी
81505	एन आशुतोष टोरा	इन्फैन्ट्री
81506	डब्ल्यू शिवम राठौर	आर्टी
81507	वाई शिवम मेहता	सिग्नल्स
81510	वाई रोहित रसगोत्रा	आर्टी
81511	एफ ईश्वर सिंह तिलारा	आर्टी
81512	के निशान्त सुशील फिलिप	इन्ट
81513	एम जाधव अजिंक्य शांताराम	आर्टी
81514	पी गुरजीत सिंह सैनी	इन्फैन्ट्री
81515	एक्स कुमार गौरव	एएससी
81516	ए भूवन थापा	एएससी
81518	एल एस सतीश कुमार	इन्फैन्ट्री
81519	एन अमोघ शर्मा	ईएमई
81521	एल दीपक सुहाग	इन्फैन्ट्री

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
81522	एन रोहन बिष्ट	मैक
81523	डब्ल्यू अशोक अरोड़ा	आर्टी
81524	वाई अमरबीर सिंह सलारिया	एसी
81525	एफ विक्रम सिंह	एओसी
81526	के अंकित मलिक	एविएशन
81527	एम परमिन्दर सिंह	आर्टी
81528	पी आयुष सलारीया	इन्फैन्ट्री
81529	एक्स राकेश कुमार	आर्टी
81530	एम साहिल देशवाल	एएडी
81531	पी अक्षज चंदेल	इन्फैन्ट्री
81532	एक्स जसविन्द्र सिंह	एएससी
81534	एच जयवीर सिंह बाज्वा	आर्टी
81535	एल वेदांक गोदियाल	इंजीनियर्स
81536	एन पार्थ सारथी ससमल	सिग्नल्स
81537	डब्ल्यू सोनू कुमार	इन्फैन्ट्री
81538	वाई निखिल अग्रवाल	आर्टी
81541	वाई सुमित कुमार यादव	मैक
81543	के निखिल मनचन्दा	सिग्नल्स
81544	एम रवि कुमार	एओसी
81545	पी शिनु कुंजुमोन	एएडी
81546	एक्स सिद्धांत सिंह सलारिया	एसी
81549	एल कृष्णपाल सिंह	आर्टी
81550	ए रवि कुमार	आर्टी
81551	एच दिग्विजय सिंह राणा	इन्फैन्ट्री
81552	एल हिमांशु यादव	आर्टी
81553	एन सुनील कुमार	एएडी
81554	डब्ल्यू कुमार शानू	आर्टी
81555	वाई विश्वदीप देसाई	इंजीनियर्स
81556	एफ सौरभ रत्तन	मैक
81557	के रजत पेंगोरिया	इन्फैन्ट्री
81558	एम सुयश कुमार	आर्टी
81559	पी कोल्ली सुधीर कुमार	इन्फैन्ट्री
81560	के तुषार परमार	एसी
81561	एम शिवांशू	इन्फैन्ट्री
81563	एक्स निशान्त झोब्टा	इन्फैन्ट्री
81564	ए आदित्य वीर यादव	इन्फैन्ट्री
81565	एच मुकुल कुमार	इन्फैन्ट्री
81566	एल रौशन कुमार यादव	इन्फैन्ट्री
81567	एन आदेश मावी	इन्फैन्ट्री

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
81568	डब्ल्यू अभिषेक सिंह इंदौरिया	इन्फैन्ट्री
81569	वाई परमिन्दर सिंह	इंजीनियर्स
81570	एन मांडवड़े अभिजीत केशव	आर्टी
81571	डब्ल्यू अनीश आनंद कुमार	एसी
81572	वाई गौरव सिंह राणा	सिग्नल्स
81573	एफ सलिम थम्पी	आर्टी
81574	के कुमार चन्दन सिन्हा	मैक
81575	एम शिवम शर्मा	एएडी
81577	एक्स अनिल कुमार	आर्टी
81578	ए कीर्तिमान कुमार सिंह	आर्टी
81580	एक्स नवल सांडिल्या	आर्टी
81581	ए हेम चन्द्र दानी	ईएमई
81582	एच शुभेन्द्र झा	इन्फैन्ट्री
81583	एल हर्ष अरोड़ा	एएससी
81584	एन विवेक परिछा	आर्टी
81585	डब्ल्यू अमन आनन्द	मैक
81586	वाई साकीब इकबाल खान	आर्टी
81587	एफ अनीष कुमार के जे	एओसी
81588	के कुमार विक्रम	इन्फैन्ट्री
81589	एम सागर गौड़	इन्ट
81590	एफ सरवणन	आर्टी
81591	के आशीष त्रिपाठी	इंजीनियर्स
81592	एम सौरभ कुमार	इन्फैन्ट्री
81594	एक्स सुशील कुमार यादव	इन्फैन्ट्री
81596	एच राहुल यादव	ईएमई
81597	एल जतिन पुण्डीर	आर्टी
81598	एन गोहिल पार्थराज	इन्फैन्ट्री
81599	डब्ल्यू कौशल सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री
81600	ए सम्राट सिंह चौहान	एविएशन
81601	एच माजिद अहमद सिद्दिकी	इन्फैन्ट्री
81602	एल सूबरोतो धर	आर्टी
81603	एन डोक शिवाजी उद्धवराव	इन्फैन्ट्री
81604	डब्ल्यू विनोद कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री
81605	वाई करन थापा	एसी
81606	एफ रोहित ओझा	एसी
81607	के सुल्फिकर ए	एओसी
81609	पी आनन्द विक्रम सिंह	इन्फैन्ट्री
81610	के सौरभ नौटियाल	एसी
81611	एम अक्षय रामदास गायकवाड	इन्फैन्ट्री

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
81612	पी अमनदीप सिंह	मैक
81613	एक्स शुभम कुमार	आर्टी
81614	ए विकास कुमार	आर्टी
81615	एच वरुण पटियाल	इंजीनियर्स
81616	एल कार्तिक पाण्डे	एएडी
81617	एन प्रवीण कुमार कुन्तल	इंजीनियर्स
81618	डब्ल्यू अंकित राजपूत	इन्फैन्ट्री
81619	वाई राहुल गोयत	आर्टी
81621	डब्ल्यू उपामन्यू मलिक	आर्टी
81622	वाई प्रणव पि सुबरामनियम	सिग्नल्स
81623	एफ सत्य प्रकाश	आर्टी
81624	के संकल्प शर्मा	आर्टी
81625	एम आयुष कुमार वंश	एएडी
81626	पी अंतरिक्ष फोतेदार	इन्फैन्ट्री
81628	ए धन सिंह थापा	एएससी
81629	एच उदयकुमार दिपकराव चटप	ईएमई
81631	ए अक्षय वालिया	इन्फैन्ट्री
81632	एच आशीन भनोट	एसी
81633	एल प्रवीनकुमार के बेनूर	इन्फैन्ट्री
81634	एन ऋषभ राज	एएडी
81635	डब्ल्यू अजय कुमार	आर्टी
81636	वाई ऋषभ प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री
81637	एफ आर साहिल	इन्फैन्ट्री
81638	के प्रभजोत सिंह	मैक
81639	एम अवनीश सिंह	एओसी
81641	के प्रशांत मिश्रा	आर्टी
81643	पी सुरजीत सिंह	आर्टी
81644	एक्स राहुल सक्सेना	आर्टी
81645	ए विकास द्विवेदी	इंजीनियर्स
81646	एच अंकित शुक्ला	इन्फैन्ट्री
81647	एल मोहित यादव	एएडी
81648	एन सुदर्शन कुमार	आर्टी
81650	एल भरत सेठ	एसी
81651	एन हनुमत प्रसाद	इन्फैन्ट्री
81652	डब्ल्यू धन बहादुर थापा	इन्ट
81653	वाई दिनेश कुमार बडसरा	एएससी
81654	एफ उमेश सुर्वे	इन्फैन्ट्री
81655	के देवी दत्त	इन्फैन्ट्री
81656	एम भारत पंवार	आर्टी

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
81657	पी मंजूनाथ	एएससी
81658	एक्स अमन अरोड़ा	एएडी
81659	ए शुभम सिंह	इन्फैन्ट्री
81660	पी पारिक्षित शर्मा	ईएमई
81661	एक्स प्रसाद आभानगराव बिरादार	आर्टी
81662	ए राकेश कुमार चौबे	आर्टी
81663	एच शॉन रोबिन फर्नान्डीस	इन्फैन्ट्री
81664	एल प्रद्युम्न वर्मा	इंजीनियर्स
81665	एन दान सिंह	एएससी
81666	डब्ल्यू टीकाराम गुरुंग	इन्फैन्ट्री
81668	एफ सोमेश शर्मा	एसी
81669	के प्रशान्त ग्रेवाल	एएडी
81670	वाई प्रतीक सिंह बिष्ट	आर्टी
81672	के राजीव रंजन	आर्टी
81673	एम बूरा उदय चन्द्र मौलि	आर्टी
81674	पी विनय कन्याल	एएडी
81675	एक्स कमल सिंह कापकोटी	इन्फैन्ट्री
81676	ए पार्थ चतुर्वेदी	एओसी
81678	एल पंकज कुमार	इन्फैन्ट्री
81680	एच अविनाश नसरानी	इन्ट
81681	एल सोमित्रा डे	इन्फैन्ट्री
81682	एन अर्जुन सिंह देवड़ा	आर्टी
81683	डब्ल्यू दीपक वालिया	इन्फैन्ट्री
81685	एफ योगेश प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री
81686	के तुषार ठाकुर	आर्टी
81687	एम अंकित कौशल	आर्टी
81688	पी जगदाले प्रसाद दिलीप	एएससी
81689	एक्स अमित कुमार जाँगड़ा	एविएशन
81691	पी पारस मिश्रा	एसी
81692	एक्स अभिषेक सिंह	सिग्नल्स
81693	ए धीरज सिहाग	इन्फैन्ट्री
81694	एच रुबल मुदगल	मैक
81695	एल नवीन कुमार	एएडी
81696	एन पाटील श्रीधन धनाजीराव	एएससी
81697	डब्ल्यू दीपक थापा	इन्फैन्ट्री
81698	वाई धनन्जय कुमार	इन्फैन्ट्री
81700	एल रजत बेरी	इन्फैन्ट्री
81701	एन आई इसाक एरविन राज	इंजीनियर्स
81702	डब्ल्यू दिव्यांशु सिंह नयाल	एओसी

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
81703	वाई सत्यनारायना माडिमि	एएडी
81704	एफ सिद्धार्थ दास	इन्फैन्ट्री
81706	एम गौरव सेनी	आर्टी
81707	पी सिद्धार्थ चौधरी	इंजीनियर्स
81708	एक्स अतुल खोखेर	इन्फैन्ट्री
81709	ए नवदीप छिल्लर	एसी
81710	पी दिपान गुरुंग	इन्फैन्ट्री
81711	एक्स रविन्द्र सिंह शेखावत	मैक
81712	ए अमित कुमार शर्मा	आर्टी
81713	एच रमेश चन्द्र पाण्डे	आर्टी
81714	एल शिवम लखेड़ा	इन्फैन्ट्री
81715	एन अवनीश त्रीपाठी	एओसी
81716	डब्ल्यू त्रिदीप कुमार शर्माह	इन्फैन्ट्री
81717	वाई रोहित ऐरी	आर्टी
81718	एफ विवेकानंद राघवेन्द्रा बागोडी	आर्टी
81719	के अविनाश कुमार	सिग्नल्स
81720	वाई कृष्ण	आर्टी
81723	एम अमन कुमार	एसी
81724	पी आदित्य कुमार	एएससी
81725	एक्स हर्षित भारद्वाज	मैक
81726	ए हरिदर सिंह	एएडी
81727	एच शिवागौडा हनमंत्राय यालगि	एएडी
81728	एल कुलदीप सिंह	आर्टी
81729	एन सुमीत पवार	एविएशन
81730	एच रजत सिंह शेखावत	मैक
81731	एल साकेत कुमार	इंजीनियर्स
81732	एन प्रवीन कुमार	एएडी
81733	डब्ल्यू मनीष सिंह यादव	इन्फैन्ट्री
81734	वाई जीजो जेम्स	इन्फैन्ट्री
81735	एफ मूकेश कुमार	इन्फैन्ट्री
81736	के रवि अहलावत	एएससी
81737	एम अमित भट्टी	आर्टी
81738	पी गुलशन कुमार	सिग्नल्स
81739	एक्स मनीष कुमार	आर्टी
81740	एम प्रदीप कुमार डागर	एसी
81741	पी मुस्तफा बोहरा	एविएशन
81742	एक्स प्रकाश एम	इन्फैन्ट्री
81743	ए अभिषेक यादव	इन्ट
81744	एच विवेक यादव	इन्फैन्ट्री

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
81745	एल रजत कुमार नुगयाल	इन्फैन्ट्री
81746	एन शिवम्	आर्टी
81747	डब्ल्यू जितेन्द्र सिंह	एओसी
81748	वाई वरुण सम्पत्त	इन्फैन्ट्री
81749	एफ चित्रेश तिवारी	एएससी
81750	डब्ल्यू कुमार गौरव	इन्फैन्ट्री
81751	वाई मनमहक सिंह खैरा	आर्टी
81753	के अर्शदीप सिंह	एसी
81754	एम विनोद सिंह	एएडी
81755	पी मानवेन्द्र प्रताप सिंह तोमर	आर्टी
81756	एक्स प्रतीक कामबोज	एओसी
81757	ए प्रखर कुमार गुप्ता	ईएमई
81759	एल गुरतेग सिंह	इंजीनियर्स
81760	ए मुदसीर हूसैन हजम	इन्फैन्ट्री
81761	एच रविन्द्र मलिक	एएडी
81762	एल अक्षय ठाकुर	इन्फैन्ट्री
81763	एन संदिप कुमार ओझा	इन्फैन्ट्री
81764	डब्ल्यू साहिल सरोच	इन्फैन्ट्री
81765	वाई अक्षय अविनाश इंदूरकर	आर्टी
81766	एफ निर्वेद मिश्रा	एएससी
81768	एम अमित कुमार राणा	एओसी
81769	पी पुनीत कुमार	इन्फैन्ट्री
81772	पी क्षितिज राणा	इन्फैन्ट्री
81773	एक्स हिमान्यु ताकर	आर्टी
81776	एल धर्मवीर कुमार	आर्टी
81777	एन गाढे आशीष दशरथ	आर्टी
81778	डब्ल्यू यश कुमार	ईएमई
81779	वाई मानवजोत सिंह बिरदी	सिग्नल्स
81780	एन कुमार सन्नी	एएडी
81781	डब्ल्यू संदीप कुमार	इन्फैन्ट्री
81782	वाई श्री कृष्ण शिंदे	इन्फैन्ट्री
81783	एफ अभिनव कुमार लौंगवाल	आर्टी
81784	के उजवणे पंकज अनिल	इन्फैन्ट्री
81785	एम पोल सुहास कुमार	आर्टी
81787	एक्स गौरव जादौन	आर्टी
81788	ए संकेत गायकवाड	आर्टी
81789	एच रमन चौहान	इन्फैन्ट्री
81790	एक्स सौमेन गौस्वामी	एएडी
81792	एच अनुराग सोलंकी	आर्टी

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
81794	एन अमित कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
81795	डब्ल्यू प्रवीन चहल	इन्फैन्ट्री
81796	वाई रौशन कुमार पाण्डे	इन्फैन्ट्री
81797	एफ सौरभ कुमार सिंह	आर्टी
81798	के अंशुल काण्डपाल	एएडी
81799	एम बालेन्दु कुमार झा	इन्फैन्ट्री
81802	एफ जोशी रोहीत चन्द्रकांत	एएडी
81803	के पियूष कुमार सिंह	आर्टी
81804	एम राहुल मिश्रा	इन्फैन्ट्री
81805	पी द्युव डागर	एसी
81806	एक्स पेमी रवि वर्मा	आर्टी
81807	ए मनजीत चहल	इन्फैन्ट्री
81808	एच अखिलेश त्रिपाठी	एसी
81809	एल एफ नीमोन चकमा	ईएमई
81810	ए तुषार गढ़िया	एविएशन
81811	एच अनुज कुमार	सिग्नल्स
81812	एल तनुज प्रकाश यादव	एसी
81813	एन विवेक विजय	इन्फैन्ट्री
81814	डब्ल्यू संजय बिश्नोई	मैक
81816	एफ राहुल पठानियाँ	इन्फैन्ट्री
81817	के रक्षित भैसोडा	इन्फैन्ट्री
81818	एम भागवत शुभम सतीश	इन्फैन्ट्री
81819	पी अक्षय अशोक वाघ	इंजीनियर्स
81820	के संतोष कुमार	इंजीनियर्स
81822	पी विवेक चौहान	आर्टी
81823	एक्स विशाल धवन	इन्ट
81824	ए दीपक शर्मा	एसी
81825	एच साहिल डुबे	इन्फैन्ट्री
81826	एल राहुल गुप्ता	ईएमई
81827	एन रीनु के वरगीस	सिग्नल्स
81828	डब्ल्यू अभिषेक दाश	एएडी
81829	वाई टंकधर दास	एओसी
81830	एन कोतवाल शिवराज जयन्त	आर्टी
81831	डब्ल्यू मनोज कुमार	इन्फैन्ट्री
81832	वाई वाय जे याकक्षित	मैक
81833	एफ केशु चंद्रा	आर्टी
81835	एम सतीश कुमार साहु	इन्फैन्ट्री
81836	पी अभिषेक सिंह	आर्टी
81837	एक्स अभिषेक श्योराण	इन्फैन्ट्री

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
81838	ए प्रांजल कबठियाल	इंजीनियर्स
81839	एच प्रतीक कुमार	इन्फैन्ट्री
81840	एक्स अनिल कुमार	एएससी
81843	एल साहिल सिंह	इन्ट
81844	एन मान सिंह ग्रेवाल	इंजीनियर्स
81846	वाई अक्षय कुमार	इन्फैन्ट्री
81847	एफ सचिन शर्मा	एएडी
81848	के राम कुमार पी	मैक
81849	एम समर प्रताप सिंह छेत्री	इन्फैन्ट्री
81850	एफ सौरभ बतरा	एसी
81851	के सूरज कृष्णा आर	एओसी
81853	पी केतन गुसाई	ईएमई
81854	एक्स मनीष चन्द्र	आर्टी
81855	ए श्रियेश कुमार बाजपई	आर्टी
81856	एच स्पर्श मल्होत्रा	आर्टी
81857	एल निकम महेन्द्र बापू	एएससी
81858	एन अक्षय टिक्कर	सिग्नल्स
81859	डब्ल्यू मोहित कुमार मीना	आर्टी
81860	एल सोनू भारद्वाज	आर्टी
81861	एन अभिमन्यु सिंह	इंजीनियर्स
81862	डब्ल्यू साहिल कश्यप	एएडी
81864	एफ कुणाल बेनर्जी	आर्टी
81865	के विष्णु आर	इन्फैन्ट्री
81866	एम आनन्द प्रकाश	इन्फैन्ट्री
81867	पी फर्नांडिस जी	इन्फैन्ट्री
81868	एक्स कृष्ण कुमार शुक्ला	इन्फैन्ट्री
81869	ए साहिल तनेटा	एएससी
81870	पी अक्षय सिंह	एओसी
81871	एक्स जतिन शर्मा	इन्फैन्ट्री
81872	ए थौकचौंम भागाजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
81874	एल योगेश मलहौत्रा	इन्फैन्ट्री
81875	एन शत्रुंजय सिंह	एसी
81876	डब्ल्यू वी एस अगिलान प्रगादीश	आर्टी
81877	वाई नकुल गोस्वामी	आर्टी
81878	एफ शिखर गगन	इन्फैन्ट्री
81879	के शिवचरण चौहान	इन्फैन्ट्री
81880	वाई अला मुरली मोहन	ईएमई
81881	एफ प्रणव हर्ष	आर्टी
81882	के सुमित उपाध्याय	आर्टी

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
81883	एम सुधीष एसआर	आर्टी
81884	पी विनय तोमर	सिग्नल्स
81885	एक्स नवीन कुमार	इंजीनियर्स
81886	ए जतिन्द्र सिंह	एसी
81887	एच ब्रजेश कुमार यादव	मैक
81888	एल जय	एएससी
81889	एन ध्रुव वर्मा	मैक
81891	एल भरत बी शेटी	इन्फैन्ट्री
81892	एन पिनाकी पंडा	आर्टी
81893	डब्ल्यू श्याम पी	आर्टी
81894	वाई रविन्द्र सिंह	आर्टी
81895	एफ सोमवीर सिंह	एएससी
81896	के अमित मिश्रा	आर्टी
81897	एम अविनाश उपाध्याय	इन्फैन्ट्री
81899	एक्स प्रसेनजित तोमर	इन्फैन्ट्री
81900	एफ सुमित फोगाट	एओसी
81901	के आदित्य प्रकाश वी पी	इन्फैन्ट्री
81902	एम निशांत ए कुमार	आर्टी
81903	पी शक्ति प्रसाद मिश्र	आर्टी
81906	एच हितेश कुमार	मैक
81907	एल अभिजीत सिंह	एसी
81908	एन सुधीर यादव	एसी
81909	डब्ल्यू वा इरैवन	इन्फैन्ट्री
81910	एल सददाम खान	आर्टी
81911	एन कूलकर्णी जतिन जगदिशराव	इन्ट
81913	वाई सुखजीत सिंह	इंजीनियर्स
81914	एफ सिद्धार्थ चतुर्वेदी	एएससी
81916	एम प्रणव शर्मा	एएससी
81917	पी कोरगोवकर पार्थ विजय	इन्फैन्ट्री
81918	एक्स अंकुर द्विवेदी	एसी
81919	ए प्रनेश आर वी	एविएशन
81920	पी वरुण सक्सेना	एओसी
81921	एक्स नमन जायसवाल	सिग्नल्स

ले के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से

निम्नलिखित चौदह कैडेट्स जो कि 138 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से स्थाई रूप से विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74

के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 81508एफ प्रवीण कुमार (इंजीनियर्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81507वाई शिवम मेहता (सिग्नल्स) के नीचे, आई सी संख्या 81509के अंचित सरप्रताप रत्तानी (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81508एफ प्रवीण कुमार (इंजीनियर्स) के नीचे, आई सी संख्या 81517एच विश्रुत सिंह चन्देल (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81516ए भूवन थापा (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 81520एच प्रतीक बिष्ट (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81519एन अमोघ शर्मा (ईएमई) के नीचे, आई सी संख्या 81579एच रवप्रीत सिंह (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81578ए कीर्तिमान कुमार सिंह (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81722के धीरज सैनी (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81721एफ आशीष आनन्द (ईएमई) के नीचे, आई सी संख्या 81758एच अजय सिंह (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81757ए प्रखर कुमार गुप्ता (ईएमई) के नीचे, आई सी संख्या 81771एम आयुष कुमार श्रीवास्तव (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81770के शुभम बिष्ट (मैक) के नीचे, आई सी संख्या 81774ए अपिल कुमार (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81773एक्स हिमान्यु ताकर (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81791ए शुभम कुमार (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81790एक्स सौमेन गौस्वामी (एएडी) के नीचे, आई सी संख्या 81800डब्ल्यू सूर्य विजय कुमार सिंह (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81799एम बालेन्दु कुमार झा (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81801वाई सूर्य प्रकाश (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81800डब्ल्यू सूर्य विजय कुमार सिंह (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81904एक्स इन्द्रजीत भट्टाचारजी (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81903पी शक्ति प्रसाद मिश्र (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81915के दशरथ शर्मा (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81914एफ सिद्धार्थ चतुर्वेदी (एएससी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से

निम्नलिखित पांच कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80244वाई गौरव बसेड़ा (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80243डब्ल्यू विजय सिंह (एसी) के नीचे, आई सी संख्या 80290एन विकास कुमार (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80289वाई धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया (मैक) के नीचे, आई सी संख्या 80301पी राहुल शर्मा (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80300एम राहुल यादव (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 80442के विनीत जखमोला (सिग्नल्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80441एफ शांतनु सिंह (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 80599के कुमार ललन सिंह (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80598एफ परमा संकेत सिद्धेश्वर (सिग्नल्स) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

निम्नलिखित छः कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80391एफ विकास गोयल (एएससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80390वाई मिथुन बिन्नी (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 80435एन नीलेश कुमार पाण्डेय (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80434एल राहुल शर्मा (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80513ए हिमंशु (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80512एक्स सतीश कुमार शेखावत (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 80518वाई विक्रांत चौहान (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80517डब्ल्यू भूपेश बैरागी (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 80566वाई वसंत रंजन (एओसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80565डब्ल्यू प्रकाश मिश्रा (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 80623पी मनोज कत्याल (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80622एम प्रवीण कुमार (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

निम्नलिखित दो कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80380पी शेड्डी विश्वम रमेश (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80379ए मोहित सोनी (एओसी) के नीचे, आई सी संख्या 80403एल सत्यम द्विवेदी (एओसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80402एच अंकुश चन्याल (इंजीनियर्स) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 135 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79980एल अनीश कुमार सिंह (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79979डब्ल्यू सौरभ मिश्रा (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

अभिषेक तिवारी
ले कर्नल
एएमएस 8बी

सेना शाखा

सं. 56, दिनांक 8 फरवरी 2017— राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से

निम्नलिखित तीन कैडेट्स जो कि 135 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79743एफ अरिबम ओकेश्वर शर्मा (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79742वाई चेतन यादव (सिग्नल्स) के नीचे, आई सी संख्या 79848एल अक्षय कुमार (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79847एच डब्ल्यू नीगसन काइरेंग (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 79896एल कुलदीप सिंह (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79895एच विवेक कुमार चौहान (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से

निम्नलिखित तीन कैडेट्स जो कि 138 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 81667वाई दीपक कुमार केशरी (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81666डब्ल्यू टीकाराम गुरुंग (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81677एच शिवम आर पटेल (ईएमई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81676ए पार्थ चतुर्वेदी (एओसी) के नीचे, आई सी संख्या 81775एच रंजीत कुमार (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81774ए अपिल कुमार (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से

निम्नलिखित चार कैडेट्स जो कि 137 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80939एफ अनन्तु एस कुमार (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80938वाई मोहित मयंक (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80972वाई सुभाष कुमार (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80971डब्ल्यू विनोद कुमार (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81175ए उज्ज्वल मिश्रा (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81174एक्स अरसलान खैरुल बशर (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81209एच अजीत मलिक (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81208ए पारखे गौरिश नारायण (आर्टी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से

निम्नलिखित बारह कैडेट्स जो कि 137 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80962पी दीपक कुमार यादव (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80961एम प्रभु नारायण कपुर (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80992एम पीयूष सुनील देशमुख (एएससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80991के आदिश खजूरिया (सिग्नल्स) के नीचे, आई सी संख्या 81019डब्ल्यू राहुल जयप्रकाश (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81018एन बाजहांग लिम्बु (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81085वाई सौरभ देशवाल (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81084डब्ल्यू धीरज आचार्य (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81090के मनोज बसेरा (एओसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81089पी संजय दत्त (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81092पी अभिलाष शर्मा (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81091एम भरत प्रताप सिंह (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 81109एक्स संतोष कुमार प्रधान (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81108पी मनजिंदर सिंह (एसी) के नीचे, आई सी संख्या 81112एक्स के कृष्णा तेजा (सिग्नल्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81111पी पंकज यादव (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 81128एच एस अर्जुन लिंगम (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81127ए युवराज सिंह (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81182डब्ल्यू अरमान मलिक (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81181एन धनंजय परमार (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81218के जुगराज सिंह (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81217एफ अरुण यादव (एसी) के नीचे, आई सी संख्या 81270एमराहुल देव वर्मा (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81269एक्स राहुल सिंह यादव (आर्टी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 137 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80969वाई गौरव चौधरी (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80968डब्ल्यू शशांक कुमार सिंह (आर्टी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

निम्नलिखित पांच कैडेट्स जो कि 137 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80926के सुक्ष्म पंडिता (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80925एफ प्रदीप सिंह ठाकुर (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80950ए विशाल कटोच (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80949एल मोहित मलिक (एओसी) के नीचे, आई सी संख्या 81026एम सिद्धार्थ राठौड़ (एएससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81025के एम.वि.एन.वि सूर्य तेजा (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 81093एक्स अभिषेक धामू (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81092पी अभिलाष शर्मा (आर्टी) के नीचे, तथा आई सी संख्या 81134डब्ल्यू मृणाल राज मयंक (एएससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81133एन देवराज सिंह राजावत (ईएमई) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

निम्नलिखित दो कैडेट्स जो कि 137 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 81130ए मुदित सतीजा (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81129एल मृदुल अग्रवाल (एएडी) के नीचे, आई सी संख्या 81238एक्स अतुल कुमार सिंह (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81237पी राजिन्दर सिंह (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले के पद पर दिनांक 08 जून 2013 से

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 132 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 08 जून 2013 से स्थाई रूप से विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 78077पी ऋषि द्विवेदी (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78076एम क्षितिज कौशिक (एएससी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

प्रकाश कुमार सिंह
मेजर
एएमएस 8बी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 57, दिनांक 9 फरवरी 2017—राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से ₹ 15600-39100/- (पे बैंड-3) + ₹ 5400/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2013AB1059	श्री जी राकेश	ए डी ई, बेंगलूर	23.01.2013
2012AB1012	श्री सुमन कुमार	ए एस एल, हैदराबाद	08.11.2012
2012AB1025	श्री नितीश भाजे	सी ए बी एस, बेंगलूर	09.07.2012
2012AB1058	सुश्री कनिकि श्रीलता	एन पी ओ एल, कोच्ची	10.12.2012

राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से ₹ 15600-39100/- (पे बैंड-3) + ₹ 6600/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2016AC1002	श्री माधवेन्द्र शर्मा	मुख्यालय- एस पी आई सी, दिल्ली	09.06.2016

राजीव रंजन,
अपर-निदेशक/कार्मिक (डी आर डी एस-II)

सं. 58, दिनांक 10 फरवरी 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राम मुर्ति	(जे सी-421082 पी)	16 अगस्त 2016
सूबेदार अजय कुमार	(जे सी-421110 डब्ल्यू)	03 सितम्बर 2016 •
• (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
सूबेदार राजिन्दर सिंह	(जे सी-421483 के)	02 सितम्बर 2016 •
• (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
सूबेदार सुखदीप सिंह	(जे सी-421240 वाई)	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार अत्तार सिंह	(जे सी-421536 एक्स)	01 अक्टूबर 2016

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार आनंदी लाल शर्मा	(जे सी-422085 पी)	29 अगस्त 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जून 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार उदयविर ओझा	(जे सी-422518 एफ)	01 अक्टूबर 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जून 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार जितेन्द्र प्रसाद यादव	(जे सी-422087 ए)	27 सितम्बर 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जून 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र सिंह	(जे सी-422137 ए)	29 अगस्त 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार प्रसान्ता सामुई	(जे सी-422228 के)	01 सितम्बर 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार विलवानाथन के	(जे सी-422244 एफ)	26 अगस्त 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार लक्ष्मी नारायण पाल	(जे सी-421860 पी)	12 सितम्बर 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अगस्त 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार लाल बहादुर सिंह	(जे सी-421942 एक्स)	10 सितम्बर 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार जी मणी मूर्थी	(जे सी-422023 पी)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार नेमाय चंद्र मंडल	(जे सी-422089 एल)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार कस्तूरी लाल	(जे सी-422133 के)	13 सितम्बर 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह	(जे सी-422164 के)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार राम सागर प्रसाद	(जे सी-422187 एल)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार हरि यादव	(जे सी-422232 एम)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार नवीन कुमार माली	(जे सी-422191 एन)	01 सितम्बर 2016

नायब सूबेदार एस महेशा	(जे सी-422234 एक्स)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार पी सूर्यन	(जे सी-422215 एम)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार शिव बहादुर सिंह	(जे सी-422229 एम)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार निशिथ सामन्ता	(जे सी-421863 एच)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार मणी मोहनन टी पी	(जे सी-422042 ए)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार भगवान सिंह रावत	(जे सी-422113 डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार संजीव कुमार	(जे सी-422287 डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार सुसांत कुमार साहू	(जे सी-422270 एच)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार जय चंद रामोला	(जे सी-422520 वाई)	03 अक्टूबर 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार अबनीश कुमार	(जे सी-422635 एम)	01 अक्टूबर 2016

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महेश्वर साहू	(14921749 के अब जे सी-422997 एन)	22 नवम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार टांडले भाऊसाहेब देवराम	(14920395 ए अब जे सी-422998 डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार पी रमेश	(14919483 के अब जे सी-422999 वाई)	01 नवम्बर 2016
हवलदार रजिन्दर सिंह	(14919030 वाई अब जे सी-423000 ए)	01 नवम्बर 2016
हवलदार टिका राम छेत्री	(14919525 एल अब जे सी-423001 एच)	01 नवम्बर 2016
हवलदार महिन्द्र कुमार	(14922107 एफ अब जे सी-423002 एल)	12 नवम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार सुगेश कुमार एन पी	(14921163 एन अब जे सी-423003 एन)	11 नवम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार सुरेश चंद्र निठरवाल	(14922137 वाई अब जे सी-423004 डब्ल्यू)	25 नवम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार आसा राम	(14923343 पी अब जे सी-423005 वाई)	15 दिसम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार तिलक राज	(14922346 डब्ल्यू अब जे सी-423006 एफ)	26 नवम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार सुनंदन	(14921304 एक्स अब जे सी-423007 के)	02 नवम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार मनोज कुमार	(14920729 के अब जे सी-423008 एम)	01 नवम्बर 2016
हवलदार पन्ना राम जाट	(14921760 एच अब जे सी-423009 पी)	05 नवम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार वेद प्रकाश	(14921406 एन अब जे सी-423010 के)	01 नवम्बर 2016
हवलदार येम बहादूर छेत्री	(14921432 पी अब जे सी-423011 एम)	01 नवम्बर 2016
हवलदार सुबाष चंद	(14921993 के अब जे सी-423012 पी)	02 नवम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)		

- हवलदार मनिकुट्टन एन (14922165 एल अब जे सी-423013 एक्स) 03 नवम्बर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार जय वीर कौशिक (14923572 ए अब जे सी-423014 ए) 07 नवम्बर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार सुशील कुमार (14923978 एन अब जे सी-423015 एच) 09 नवम्बर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार मोफीजुल हक (14921759 एन अब जे सी-423016 एल) 14 दिसम्बर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार जय कृष्ण (14919438 एक्स अब जे सी-423017 एन) 23 नवम्बर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 नवम्बर 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार राजवीर सिंह (14923097 पी अब जे सी-423018 डब्ल्यू) 21 नवम्बर 2016

नियमित सेना

कवचित कोर

स्थाई रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार	धन्ना राम	(जेसी-243540डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2016
रिसालदार	चन्द्र भुषन तिवारी	(जेसी-244140डब्ल्यू)	01 जनवरी 2017
रिसालदार	रामेश्वर सिंह	(जेसी-243960डब्ल्यू)	01 जनवरी 2017
रिसालदार	दविन्दर सिंह	(जेसी-244573एन)	01 नवम्बर 2016
रिसालदार	अमेदा राम	(जेसी-244394एन)	*18 अगस्त 2015
*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जाती है)			
रिसालदार/क्लर्क	देबब्रता घोष	(जेसी-241673एन)	01 जनवरी 2017
रिसालदार	सुरेश बाबु सी जी	(जेसी-244263एच)	01 नवम्बर 2016
रिसालदार	कुलदीप	(जेसी-244015एम)	01 सितम्बर 2016
रिसालदार	जुनेद अहमद	(जेसी-243595ए)	01 नवम्बर 2016

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार	जय सिंह गोदारा	(जेसी 246705पी)	*24 नवम्बर 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	रिश्केश गुरजर	(जेसी 245336डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2016
नायब रिसालदार	दौलत सिंह	(जेसी 245140एच)	01 दिसम्बर 2016
नायब रिसालदार	जोधरा राम	(जेसी 245513एल)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार	रवी करन सिंह	(जेसी 245312एम)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार	अवधेश कुमार यादव	(जेसी 244866वाई)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार/क्लर्क	अजय कुमार सिंह	(जेसी 246320एक्स)	01 जनवरी 2017
नायब रिसालदार/क्लर्क	फुल बदन राम	(जेसी 246322एच)	01 जनवरी 2017

नायब रिसालदार	राजू कुमार सिंह	(जेसी 245506पी)	01 दिसम्बर 2016
नायब रिसालदार	प्रमोद कुमार सिंह	(जेसी 245456पी)	01 दिसम्बर 2016
नायब रिसालदार	मनोज कुमार	(जेसी 245477एल)	*26 नवम्बर 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	नरेश कुमार	(जेसी 245682एम)	01 दिसम्बर 2016
नायब रिसालदार	विनय कुमार सिंह	(जेसी 245131एफ)	01 दिसम्बर 2016
नायब रिसालदार	रामाराव बटाला	(जेसी 246173ए)	01 दिसम्बर 2016
नायब रिसालदार	तेलागप्पू मधु	(जेसी 245408पी)	*03 नवम्बर 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अक्टूबर 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	जितेन्दर सिंह	(जेसी 245539ए)	01 दिसम्बर 2016
नायब रिसालदार	मित्रा पाल	(जेसी 245657एन)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार एसकेटी	उमेश कुमार	(जेसी 246271ए)	*02 फरवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार	देवेन्द्र यादव	(सं. 15461753एच अब जेसी-247322पी)	01 जनवरी 2017
दफादार	हिरेन्दर कुमार	(सं. 15468639एन अब जेसी-247299एम)	01 जनवरी 2017
दफादार	अनोद कुमार	(सं. 15468651पी अब जेसी-247315वाई)	01 जनवरी 2017
दफादार	राजामनीकम सी	(सं. 15470228एन अब जेसी-247319पी)	01 जनवरी 2017
दफादार/क्लर्क	शिव प्रकाश भगत	(सं. 15470594एक्स अब जेसी-247308एच)	01 जनवरी 2017
दफादार/क्लर्क	पंकज कुमार	(सं. 15470866एम अब जेसी-247309एल)	*02 जनवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार/क्लर्क	हरेन्द्र पाल सिंह	(सं. 15470898पी अब जेसी-247311एच)	01 जनवरी 2017
दफादार/क्लर्क	महेश कुमार छोंकर	(सं. 15470921एक्स अब जेसी-247312एल)	01 जनवरी 2017
दफादार/क्लर्क	बिवाश चन्द्र सेन	(सं. 15470925एन अब जेसी-247329वाई)	01 जनवरी 2017
दफादार/क्लर्क	अवधेश कुमार	(सं. 15470956एन अब जेसी-247330एन)	01 जनवरी 2017
दफादार	अशोक सिंह	(सं. 15471849वाई अब जेसी-247346वाई)	*31 दिसम्बर 2016
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	राजेन्दर सिंह	(सं. 15463567एल अब जेसी-247280एन)	*26 दिसम्बर 2016
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	हितेन्द्र बहादुर सिंह	(सं. 15464498एम अब जेसी-247292एच)	01 जनवरी 2017
दफादार	काशीनाथ सरदार	(सं. 15464760के अब जेसी-247270के)	01 दिसम्बर 2016
दफादार	मेन पाल	(सं. 15464766एल अब जेसी-247290एक्स)	01 जनवरी 2017
दफादार	पी सुंदर राजन	(सं. 15464893ए अब जेसी-247324ए)	*02 जनवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	देश राज	(सं. 15466908डब्ल्यू अब जेसी-247347एफ)	01 जनवरी 2017

दफादार/एसकेटी	अशोक सिंह	(सं. 15467422एक्स अब जेसी-247313एन)	01 जनवरी 2017
दफादार	मनोज कुमार ओला	(सं. 15468002के अबजेसी-247327एन)	01 जनवरी 2017
दफादार	अमरीक सिंह	(सं. 15468277एक्स अब जेसी-247287एक्स)	01 जनवरी 2017
दफादार	अशोक कुमार	(सं. 15468427एच अब जेसी-247289एच)	01 जनवरी 2017
दफादार	गुरजीत सिंह	(सं. 15468447डब्ल्यू अब जेसी-247291ए)	01 जनवरी 2017

अनुराग शर्मा
अवर सचिव

(थल सेना शाखा)

सं. 59, दिनांक 13 फरवरी 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं।

(स्थायी थल सेना)

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी नायब सूबेदार (लैबोरेटरी असिस्टेंट)

हवलदार	गोपालकृष्णन नायर टी	13959880पी	अब	जेसी-696029पी	15 सितम्बर 2007
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी।)					

ए के तिवारी
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 60, दिनांक 14 फरवरी 2017—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री सरोज कुमार पटेल वैज्ञानिक 'जी', निदेशक गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं सुरक्षा निदेशालय, र. अनु. एवं वि. सं. मुख्यालय को 31 जनवरी 2017 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए हैं और 01 फरवरी 2017 (पूर्वाह्न) से इन्हें पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किया गया है।

राजीव रंजन
अपर निदेशक (कार्मिक/डीआरडीएस-II)

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 61, दिनांक 15 फरवरी 2017—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थाई आयोग

(ले के पद पर दिनांक 11 दिसम्बर 2010 से)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थाई आयोग लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 10 सितम्बर 2011 को 127 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	.	पवीण कुमार तिवारी	आई सी सं. — 75053ए	इन्फैन्ट्री
पढ़ें	.	प्रवीण कुमार तिवारी	आई सी सं. — 75053ए	इन्फैन्ट्री

राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(2/ले के पद पर दिनांक 08 जून 1996 से)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 19 अप्रैल 1997 को 98 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	.	शिकर सोम सिंह	आई सी सं. — 54520वाई	इन्फैन्ट्री
पढ़ें	.	शिखर सोम सिंह	आई सी सं. — 54520वाई	इन्फैन्ट्री

राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(2/ले के पद पर दिनांक 15 दिसम्बर 1990 से)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 26 सितम्बर 1992 को 87 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	.	पी भी आर सुब्रामण्यम	आई सी सं. — 49936एम	इंजीनियर्स
पढ़ें	.	पी भी आर सुब्रह्मण्यम	आई सी सं. — 49936एम	इंजीनियर्स

राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले के पद पर दिनांक 09 जून 2007 से)

(सेना शाखा)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना, भाग 1 अनुभाग 4 के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 24 मई 2008 को 120 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	.	श्रीनिवास राव गावरा	आई सी 69406एक्स	एओसी
पढ़ें	.	श्रीनिवास राव गावरा	आई सी 69406वाई	एओसी

राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(2/ले के पद पर दिनांक 08 जून 1991 से)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 21 नवम्बर 1992 को 88 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	.	रेनजय जॉर्ज	आई सी सं. — 50332ए	मैक इन्फैन्ट्री
पढ़ें	.	रनेजी जॉर्ज	आई सी सं. — 50332ए	मैक इन्फैन्ट्री

प्रकाश कुमार सिंह
मेजर
एएमएस 8बी

(सेना शाखा)

शुद्धि-पत्र

सं. 62, दिनांक 16 फरवरी 2017—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले के पद पर दिनांक 11 जून 2005 से)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 14 जनवरी 2006 को 116 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती हैं।

के लिए	.	प्रकाश कुमार सिंह	आई सी सं० — 66928के	आर्टी
पढ़ें	.	प्रकाश कुमार सिंह	आई सी सं० — 66928के	आर्टी

अभिषेक तिवारी
ले. कर्नल
एएमएस 8बी

सं. 63, दिनांक 17 फरवरी 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकनाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

भारत के राजपत्र सं 253 दिनांक 04 नवम्बर 2016 में प्रकाशित अधिसूचना सं 51 दिनांक 17 दिसम्बर 2016 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फेन्ट्री और मैकनाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

नायब सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

के स्थान पर	सुखेन्द्रा कुमार पाण्डे	(जे सी-422290 एल)	01 अक्टूबर 2016
पढ़ा जाए	सुखेन्द्रा कुमार पाण्डे	(जे सी-422920 एल)	01 अक्टूबर 2016

अनुराग शर्मा
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd April 2017

D(MS) SECTION

No. 54, dated 6th February 2017—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 January 2017:-

PRINCIPAL HONORARY ARMY ADC

IC-35471M General Bipin Rawat, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, INF

Vice

IC-30351K General Dalbir Singh, PVSM, UYSM, AVSM, VSM, INF (Retired)

REVATI RAMAN
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 55, dated 7th February 2017—The President is pleased to make the following appointments:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(TO BE LTS W.E.F 08 JUN 2013)

The undermentioned Two Gentleman Cadet of 132 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 08 Jun 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

SHAILENDRA SINGH KUSHWAH (IC-77934X) AC seniority next below BALWANT SINGH (IC-77933P) INF
COMMA SUNIL KUMAR BEHERA (IC-78009F) SIGS seniority next below BHARTENDU KUMAR (IC-78008Y) INF
whose name appeared in the Gazette of India.

(TO BE LTS W.E.F 11 JUN 2016)

The undermentioned 363 Gentlemen Cadets of 138 Regular Course (92 DE, 232 Ex NDA and 39 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt wef 11 Jun 2016 except five GCs, GC N/46407 (IC No. 81543K) Nikhil Manchanda (ser No 46), GC N/46216 (IC No. 81744H) Vivek Yadav (ser No 247), GC N/46170 (IC No. 81795W) Parveen Chahal (ser No 298), GC N/46454 (IC No. 81805P) Dhruv Dagar (ser No 308) and GC N/46435 (IC No. 81870P) Akshay Singh (ser No 373) were withheld as they were LMCs at the time of POP. However, GC N/46170 (IC No. 81795W) Parveen Chahal (ser No 298), GC N/46435 (IC No. 81870P) Akshay Singh (ser No 373), GC N/46407 (IC No. 81543K) Nikhil Manchanda (ser No 46), GC N/46216 (IC No. 81744H) Vivek Yadav (ser No 247) and GC N/46454 (IC No. 81805P) Dhruv Dagar (ser No 308) were granted permanent commission wef 16 Jun 2016, 17 Jun 2016, 22 Jun 2016, 05 Jul 2016 and 06 Sep 2016 respectively after becoming S1H1A1P1E1, under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC):—

IC NO		NAME	Arm/ Service
81498	H	AMAN DHAKA	AC
81500	P	RAJENDRA SINGH BISHT	INF
81501	X	VIKAS TEJI	AC
81502	A	MRINAL KUMAR	INF
81504	L	ABHISHEK KUMAR SINHA	ARTY
81505	N	ASHUTOSH TORA	INF
81506	W	SHIVAM RATHORE	ARTY
81507	Y	SHIVAM MEHTA	SIGS

IC NO		NAME	Arm/ Service
81510	Y	ROHIT RASGOTRA	ARTY
81511	F	ISHWAR SINGH TILARA	ARTY
81512	K	NISHANT SUSHIL PHILIP	INT
81513	M	JADHAV AJINKYA SHANTARAM	ARTY
81514	P	GURJEET SINGH SAINI	INF
81515	X	KUMAR GAURAV	ASC
81516	A	BHUWAN THAPA	ASC
81518	L	S SATHISH KUMAR	INF
81519	N	AMOGH SHARMA	EME
81521	L	DEEPAK SUHAG	INF
81522	N	ROHAN BISHT	MECH
81523	W	ASHOK ARORA	ARTY
81524	Y	AMARBIR SINGH SALARIA	AC
81525	F	VIKRAM SINGH	AOC
81526	K	ANKIT MALIK	AVN
81527	M	PARMINDER SINGH	ARTY
81528	P	AYUSH SALARIA	INF
81529	X	RAKESH KUMAR	ARTY
81530	M	SAHIL DESWAL	AAD
81531	P	AKSHAJ CHANDEL	INF
81532	X	JASWINDER SINGH	ASC
81534	H	JAIVEER SINGH BAJWA	ARTY
81535	L	VEDANK GODIYAL	ENGRS
81536	N	PARTHA SARATHI SASMAL	SIGS
81537	W	SONU KUMAR	INF
81538	Y	NIKHIL AGARWAL	ARTY
81541	Y	SUMIT KUMAR YADAV	MECH
81543	K	NIKHIL MANCHANDA	SIGS
81544	M	RAVI KUMAR	AOC
81545	P	SHINU KUNJUMON	AAD
81546	X	SIDDHANT SINGH SLARIA	AC
81549	L	KRISHANPAL SINGH	ARTY
81550	A	RAVI KUMAR	ARTY
81551	H	DIGVIJAY SINGH RANA	INF
81552	L	HIMANSHU YADAV	ARTY
81553	N	SUNIL KUMAR	AAD
81554	W	KUMAR SHANU	ARTY

IC NO		NAME	Arm/ Service
81555	Y	VISHWADEEP DESAI	ENGRS
81556	F	SAURABH RATTAN	MECH
81557	K	RAJAT PENGORIYA	INF
81558	M	SUYASH KUMAR	ARTY
81559	P	KOLLI SUDHEER KUMAR	INF
81560	K	TUSHAR PARMAR	AC
81561	M	SHIVANSHU	INF
81563	X	NISHANT JHOBTA	INF
81564	A	ADITYA VEER YADAV	INF
81565	H	MUKUL KUMAR	INF
81566	L	RAUSHAN KUMAR YADAV	INF
81567	N	ADESH MAVI	INF
81568	W	ABHISHEK SINGH INDOLIA	INF
81569	Y	PARMINDER SINGH	ENGRS
81570	N	MANDWADE ABHIJEET KESHAV	ARTY
81571	W	ANISH ANANDKUMAR	AC
81572	Y	GAURAV SINGH RANA	SIGS
81573	F	SALIM THAMPI	ARTY
81574	K	KUMAR CHANDAN SINHA	MECH
81575	M	SHIVAM SHARMA	AAD
81577	X	ANIL KUMAR	ARTY
81578	A	KIRTIMAN KUMAR SINGH	ARTY
81580	X	NAWAL SANDILYA	ARTY
81581	A	HEM CHANDRA DANI	EME
81582	H	SHUBHENDRA JHA	INF
81583	L	HARSH ARORA	ASC
81584	N	VIVEK PARICHHA	ARTY
81585	W	AMAN ANAND	MECH
81586	Y	SAKIB IQBAL KHAN	ARTY
81587	F	ANISH KUMAR KJ	AOC
81588	K	KUMAR VIKRAM	INF
81589	M	SAGAR GAUR	INT
81590	F	SARAVANAN P	ARTY
81591	K	ASHISH TRIPATHI	ENGRS
81592	M	SAURABH KUMAR	INF
81594	X	SUSHIL KUMAR YADAV	INF

IC NO		NAME	Arm/ Service
81596	H	RAHUL YADAV	EME
81597	L	JATIN PUNDIR	ARTY
81598	N	GOHIL PARTHRAJ SINH BHARAT SINH	INF
81599	W	KAUSHAL SINGH CHAUHAN	INF
81600	A	SAMRAT SINGH CHAUHAN	AVN
81601	H	MAJID AHMED SIDDIQUI	INF
81602	L	SUBROTO DHAR	ARTY
81603	N	DOKE SHIVAJI UDHAVRAO	INF
81604	W	VINOD KUMAR SHARMA	INF
81605	Y	KARAN THAPA	AC
81606	F	ROHIT OJHA	AC
81607	K	SULFIKAR A	AOC
81609	P	ANAND VIKRAM SINGH	INF
81610	K	SAURABH NAUTIYAL	AC
81611	M	AKSHAY RAMDAS GAIKWAD	INF
81612	P	AMANDEEP SINGH	MECH
81613	X	SHUBHAM KUMAR	ARTY
81614	A	VIKAS KUMAR	ARTY
81615	H	VARUN PATIAL	ENGRS
81616	L	KARTIK PANDEY	AAD
81617	N	PRAVEEN KUMAR KUNTAL	ENGRS
81618	W	ANKIT RAJPUT	INF
81619	Y	RAHUL GOYAT	ARTY
81621	W	UPAMANYU MALIK	ARTY
81622	Y	PRANAV P SUBRAMANIAN	SIGS
81623	F	SATYA PRAKASH	ARTY
81624	K	SANKALP SHARMA	ARTY
81625	M	AYUSH KUMAR VANSI	AAD
81626	P	ANTRIKSH FOTEDAR	INF
81628	A	DHAN SINGH THAPA	ASC
81629	H	UDAYKUMAR DEEPAKRAO CHATAP	EME
81631	A	AKSHAY WALIA	INF
81632	H	AASHEEN BHANOT	AC
81633	L	PRAVEENKUMAR K BENUR	INF
81634	N	RISHABH RAJ	AAD
81635	W	AJAY KUMAR	ARTY
81636	Y	RISHABH PRATAP SINGH	INF

IC NO		NAME	Arm/ Service
81637	F	R SAHIL	INF
81638	K	PRABJOT SINGH	MECH
81639	M	AVNISH SINGH	AOC
81641	K	PRASHANT MISHRA	ARTY
81643	P	SURJEET SINGH	ARTY
81644	X	RAHUL SAXENA	ARTY
81645	A	VIKAS DWIVEDI	ENGRS
81646	H	ANKIT SHUKLA	INF
81647	L	MOHIT YADAV	AAD
81648	N	SUDARSHAN KUMAR	ARTY
81650	L	BHARAT SETH	AC
81651	N	HANUMAT PRASAD	INF
81652	W	DHAN BAHADUR THAPA	INT
81653	Y	DINESH KUMAR BADSARA	ASC
81654	F	UMESH SURVE	INF
81655	K	DEVI DUTT	INF
81656	M	BHARAT PANWAR	ARTY
81657	P	MANJUNATH	ASC
81658	X	AMAN ARORA	AAD
81659	A	SHUBHAM SINGH	INF
81660	P	PAKIKSHAT SHARMA	EME
81661	X	PRASAD ABHANGRAO BIRADAR	ARTY
81662	A	RAKESH KUMAR CHAUBEY	ARTY
81663	H	SHAWN ROBIN FERNANDES	INF
81664	L	PRADYUMN VERMA	ENGRS
81665	N	DAN SINGH	ASC
81666	W	TIKARAM GURUNG	INF
81668	F	SOMESH SHARMA	AC
81669	K	PRASHANT GREWAL	AAD
81670	Y	PRATEEK SINGH BISHT	ARTY
81672	K	RAJIV RANJAN	ARTY
81673	M	BOORA UDAY CHANDRA MOULI	ARTY
81674	P	VINAY KANYAL	AAD
81675	X	KAMAL SINGH KAPKOTI	INF
81676	A	PARTH CHATURVEDI	AOC
81678	L	PANKAJ KUMAR	INF

IC NO		NAME	Arm/ Service
81680	H	AVINASH NASRANI	INT
81681	L	SOUMITRA DEY	INF
81682	N	ARJUN SINGH DEWARA	ARTY
81683	W	DEEPAK WALIA	INF
81685	F	YOGESH PRATAP SINGH	INF
81686	K	TUSHAR THAKUR	ARTY
81687	M	ANKIT KAUSHAL	ARTY
81688	P	JAGDALE PRASAD DILIP	ASC
81689	X	AMIT KUMAR JANGRA	AVN
81691	P	PAARAS MISRA	AC
81692	X	ABHISHEK SINGH	SIGS
81693	A	DHEERAJ SIHAG	INF
81694	H	ROUBLE MUDGAL	MECH
81695	L	NAVIN KUMAR	AAD
81696	N	PATIL SHRIDHAN DHANAJIRAO	ASC
81697	W	DEEPAK THAPA	INF
81698	Y	DHANANJAY KUMAR	INF
81700	L	RAJAT BERI	INF
81701	N	I ISSAC IRWIN RAJ	ENGRS
81702	W	DIVYANSHU SINGH NAYAL	AOC
81703	Y	SATYANARAYANA MADIMI	AAD
81704	F	SIDDHARTHA DAS	INF
81706	M	GAURAV SAINI	ARTY
81707	P	SIDDHARTH CHAUDHARY	ENGRS
81708	X	ATUL KHOKHER	INF
81709	A	NAVDEEP CHHILLAR	AC
81710	P	DIPAN GURUNG	INF
81711	X	RAVINDRA SINGH SHEKHAWAT	MECH
81712	A	AMIT KUMAR SHARMA	ARTY
81713	H	RAMESH CHANDER PANDEY	ARTY
81714	L	SHIVAM LAKHERA	INF
81715	N	AVANISH TRIPATHI	AOC
81716	W	TRIDIP KUMAR SARMAH	INF
81717	Y	ROHIT AIRY	ARTY
81718	F	VIVEKANANDA RAGHAVENDRA BAGODI	ARTY
81719	K	AVINASH KUMAR	SIGS
81720	Y	KRISHAN	ARTY

IC NO		NAME	Arm/ Service
81723	M	AMAN KUMAR	AC
81724	P	ADITYA KUMAR	ASC
81725	X	HARSHIT BHARDWAJ	MECH
81726	A	HARINDER SINGH	AAD
81727	H	SHIVANAGOUDA HANAMANTRAYA YALAGI	AAD
81728	L	KULDEEP SINGH	ARTY
81729	N	SUMEET PAWAR	AVN
81730	H	RAJAT SINGH SHEKHAWAT	MECH
81731	L	SAKET KUMAR	ENGRS
81732	N	PRAVEEN KUMAR	AAD
81733	W	MANISH SINGH YADAV	INF
81734	Y	JIJO JAMES	INF
81735	F	MUKESH KUMAR	INF
81736	K	RAVI AHLAWAT	ASC
81737	M	AMIT BHATTI	ARTY
81738	P	GULSHAN KUMAR	SIGS
81739	X	MANISH KUMAR	ARTY
81740	M	PRADIP KUMAR DAGAR	AC
81741	P	MUSTAFA BOHARA	AVN
81742	X	PRAKASH M	INF
81743	A	ABHISHEK YADAV	INT
81744	H	VIVEK YADAV	INF
81745	L	RAJAT KUMAR NUGYAL	INF
81746	N	SHIVAM	ARTY
81747	W	JITENDRA SINGH	AOC
81748	Y	VARUN SAMPATH	INF
81749	F	CHITRESH TIWARI	ASC
81750	W	KUMAR GAURAV	INF
81751	Y	MANMEHAK SINGH KHAIRA	ARTY
81753	K	ARSHDEEP SINGH	AC
81754	M	VINOD SINGH	AAD
81755	P	MANVENDRA PRATAP SINGH TOMAR	ARTY
81756	X	PRATEEK KAMBOJ	AOC
81757	A	PRAKHAR KUMAR GUPTA	EME
81759	L	GURTEG SINGH	ENGRS
81760	A	MUDASIR HUSSAIN HAJAM	INF

IC NO		NAME	Arm/ Service
81761	H	RAVINDER MALIK	AAD
81762	L	AKSHAY THAKUR	INF
81763	N	SANDIP KUMAR OJHA	INF
81764	W	SAHIL SAROCH	INF
81765	Y	AKSHAY AVINASH INDURKAR	ARTY
81766	F	NIRVED MISHRA	ASC
81768	M	AMIT KUMAR RANA	AOC
81769	P	PUNEET KUMAR	INF
81772	P	KSHITIJ RANA	INF
81773	X	HIMANSHU TAKHAR	ARTY
81776	L	DHARMVIR KUMAR	ARTY
81777	N	GADHE ASHISH DASHRATH	ARTY
81778	W	YASH KUMAR	EME
81779	Y	MANAVJOT SINGH BIRDIE	SIGS
81780	N	KUMAR SUNNY	AAD
81781	W	SANDEEP KUMAR	INF
81782	Y	SHRI KRISHAN SHINDE	INF
81783	F	ABHINAV KUMAR LONGWAL	ARTY
81784	K	UJAWANE PANKAJ ANIL	INF
81785	M	POL SUHAS KUMAR	ARTY
81787	X	GAURAV JADON	ARTY
81788	A	SANKET GAIKWAD	ARTY
81789	H	RAMAN CHAUHAN	INF
81790	X	SOUMEN GOSWAMI	AAD
81792	H	ANURAG SOLANKI	ARTY
81794	N	AMIT KUMAR SINGH	INF
81795	W	PARVEEN CHAHAL	INF
81796	Y	RAUSHAN KUMAR PANDEY	INF
81797	F	SAURAV KUMAR SINGH	ARTY
81798	K	ANSHUL KANDPAL	AAD
81799	M	BALENDU KUMAR JHA	INF
81802	F	JOSHI ROHIT CHANDRAKANT	AAD
81803	K	PIYUSH KUMAR SINGH	ARTY
81804	M	RAHUL MISHRA	INF
81805	P	DHRUV DAGAR	AC
81806	X	PEMMI RAVI VARMA	ARTY
81807	A	MANJIT CHHAL	INF

IC NO		NAME	Arm/ Service
81808	H	AKHILESH TRIPATHI	AC
81809	L	F NIMON CHAKMA	EME
81810	A	TUSHAR GARHIA	AVN
81811	H	ANUJ KUMAR	SIGS
81812	L	TANUJ PRAKASH YADAV	AC
81813	N	VIVEK VIJAY	INF
81814	W	SANJAYA BISHNOI	MECH
81816	F	RAHUL PATHANIA	INF
81817	K	RAKSHIT BHAI SORA	INF
81818	M	BHAGWAT SHUBHAM SATISH	INF
81819	P	AKSHAY ASHOK WAGH	ENGRS
81820	K	SANTOSH KUMAR	ENGRS
81822	P	VIVEK CHAUHAN	ARTY
81823	X	VISHAL DHAWAN	INT
81824	A	DEEPAK SHARMA	AC
81825	H	SAHIL DUBEY	INF
81826	L	RAHUL GUPTA	EME
81827	N	RINU K VARGHESE	SIGS
81828	W	ABHISHEK DASH	AAD
81829	Y	TANKADHAR DAS	AOC
81830	N	KOTWAL SHIVRAJ JAYANT	ARTY
81831	W	MANOJ KUMAR	INF
81832	Y	YJ YAKSHIT	MECH
81833	F	KESHU CHANDRA	ARTY
81835	M	SATISH KUMAR SAHU	INF
81836	P	ABHISHEK SINGH	ARTY
81837	X	ABHISHEK SHEORAN	INF
81838	A	PRANJAL KABTHIYAL	ENGRS
81839	H	PRATEEK KUMAR	INF
81840	X	ANIL KUMAR	ASC
81843	L	SAHIL SINGH	INT
81844	N	MAAN SINGH GREWAL	ENGRS
81846	Y	AKSHAY KUMAR	INF
81847	F	SACHIN SHARMA	AAD
81848	K	RAM KUMAR P	MECH
81849	M	SAMAR PRATAP SINGH CHHETRI	INF

IC NO		NAME	Arm/ Service
81850	F	SAURABH BATRA	AC
81851	K	SOORAJ KRISHNA R	AOC
81853	P	KETAN GUSAIN	EME
81854	X	MANISH CHANDRA	ARTY
81855	A	SHREYASH KUMAR BAJPAI	ARTY
81856	H	SPARSH MALHOTRA	ARTY
81857	L	NIKAM MAHENDRA BAPU	ASC
81858	N	AKSHAY TIKKAR	SIGS
81859	W	MOHIT KUMAR MEENA	ARTY
81860	L	SONU BHARDWAJ	ARTY
81861	N	ABHIMANYU SINGH	ENGRS
81862	W	SAHIL KASHYAP	AAD
81864	F	KUNAL BANERJEE	ARTY
81865	K	VISHNU R	INF
81866	M	ANAND PRAKASH	INF
81867	P	FERNANDEZ G	INF
81868	X	KRISHNA KUMAR SHUKLA	INF
81869	A	SAHIL TANETA	ASC
81870	P	AKSHAY SINGH	AOC
81871	X	JATIN SHARMA	INF
81872	A	THOKCHOM BHAGAJIT SINGH	INF
81874	L	YOGESH MALHOTRA	INF
81875	N	SHATRUNJAY SINGH	AC
81876	W	V S AGILAN PRAGADEESH	ARTY
81877	Y	NAKUL GOSWAMI	ARTY
81878	F	SHIKHAR GAGAN	INF
81879	K	SHIVCHARAN CHAUHAN	INF
81880	Y	ALLA MURALI MOHAN	EME
81881	F	PRANAV HARSH	ARTY
81882	K	SUMIT UPADHYAY	ARTY
81883	M	SUDHEESH SR	ARTY
81884	P	VINAY TOMAR	SIGS
81885	X	NAVEEN KUMAR	ENGRS
81886	A	JATINDER SINGH	AC
81887	H	BRAJESH KUMAR YADAV	MECH
81888	L	JAY	ASC
81889	N	DHRUV VERMA	MECH
81891	L	BHARATH B SHETTY	INF

IC NO		NAME	Arm/ Service
81892	N	PINAKI PANDA	ARTY
81893	W	SYAM P	ARTY
81894	Y	RAVINDER SINGH	ARTY
81895	F	SOMVEER SINGH	ASC
81896	K	AMIT MISHRA	ARTY
81897	M	AVINASH UPADHYAY	INF
81899	X	PRASENJIT TOMAR	INF
81900	F	SUMIT PHOGAT	AOC
81901	K	ADITHYA PRAKASSH VP	INF
81902	M	NISHANT A KUMAR	ARTY
81903	P	SHAKTI PRASAD MISHRA	ARTY
81906	H	HITESH KUMAR	MECH
81907	L	ABHIJEET SINGH	AC
81908	N	SUDHIR YADAV	AC
81909	W	V ERAIVAN	INF
81910	L	SADDAM KHAN	ARTY
81911	N	KULKARNI JATIN JAGDISHRAO	INT
81913	Y	SUKHJIT SINGH	ENGRS
81914	F	SIDHARTH CHATURVEDI	ASC
81916	M	PRANAV SHARMA	ASC
81917	P	KORGAONKAR PARTH VIJAY	INF
81918	X	ANKUR DWIVEDI	AC
81919	A	PRAANES R V	AVN
81920	P	VARUN SAXENA	AOC
81921	X	NAMAN JAISWAL	SIGS

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(TO BE LTS W.E.F. 11 JUNE 2016)**

The undermentioned fourteen Gentleman Cadet of 138 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 11 Jun 2016 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

PRAVEEN KUMAR (IC-81508F) ENGRS seniority next below SHIVAM MEHTA (IC-81507Y) SIGS, ANCHIT SARPRATAP RATTANI (IC-81509K) INF seniority next below PRAVEEN KUMAR (IC-81508F) ENGRS, VISHRUT SINGH CHANDEL (IC-81517H) INF seniority next below BHUWAN THAPA (IC-81516A) ASC, PRATEEK BIST (IC-81520H) INF seniority next below AMOGH SHARMA (IC-81519N) EME, RAVPREET SINGH (IC-81579H) AC seniority next below KIRTIMAN KUMAR SINGH (IC-81578A) ARTY, DHEERAJ SAINI (IC-81722K) INF seniority next below ASHISH ANAND (IC-81721F) EME, AJAY SINGH (IC-81758H) ARTY seniority next below PRAKHAR KUMAR GUPTA (IC-81757A) EME, AYUSH KUMAR SRIVASTAVA (IC-81771M) AC seniority next below SHUBHAM BISHT (IC-81770K) MECH, APIL KUMAR (IC-81774A) INF seniority next below HIMANSHU TAKHAR (IC-81773X) ARTY, SHUBHAM KUMAR (IC-81791A) ARTY seniority next below SOUMEN GOSWAMI (IC-81790X) AAD, SURYA VIJAY KUMAR SINGH (IC-81800W) ARTY seniority next below BALENDU KUMAR JHA (IC-81799M) INF, SURYA PRAKASH (IC-81801Y) INF seniority next below SURYA VIJAY KUMAR SINGH (IC-81800W) ARTY, INDRAJIT BHATTACHARJEE (IC-81904X) AAD seniority next below SHAKTI PRASAD MISHRA (IC-81903P) ARTY,

DASHRATH SHARMA (IC-81915K) INF seniority next SIDHARTH CHATURVEDI (IC-81914F) ASC, whose name appeared in the Gazette of India.

(To Be Lts W.E.F 13 Jun 2015)

The undermentioned five Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

GAURAV BASERA (IC-80244Y) ARTY seniority next below VIJAY SINGH (IC-80243W) AC COMMA VIKAS KUMAR (IC-80290N) ARTY seniority next below DHARMENDRA SINGH BHADOURIA (IC-80289Y) MECH COMMA RAHUL SHARMA (IC-80301P) AC seniority next below RAHUL YADAV (IC-80300M) ARTY COMMA VINEET JAKHMOLA (IC-80442K) SIGS seniority next below SHANTANU SINGH (IC-80441F) ARTY COMMA KUMAR LALAN SINGH (IC-80599K) ARTY seniority next below PARMA SANKET SIDDHESHWAR (IC-80598F) SIGS whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned Six Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

VIKAS GOYAL (IC-80391F) ASC seniority next below MITHUN BINNY (IC-80390Y) ARTY COMMA NILESH KUMAR PANDEY (IC-80435N) ARTY seniority next below RAHUL SHARMA (IC-80434L) INF COMMA HIMANSHU (IC-80513A) MECH seniority next below SATISH KUMAR SHEKHAWAT (IC-80512X) ASC COMMA VIKRANT CHAUHAN (IC-80518Y) AAD seniority next below BHUPESH BAIRAGI (IC-80517W) ASC COMMA VASANTA RANJAN (IC-80566Y) AOC seniority next below PRAKASH CHANDRA MISHRA (IC-80565W) ARTY COMMA MANOJ KATYAL (IC-80623P) ARTY seniority next below PRAVEEN KUMAR (IC-80622M) INF whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned Two Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

SHETTY VISHWAM RAMESH (IC-80380P) MECH seniority next MOHIT SONI (IC-80379A) AOC COMMA SATYAM DWIVEDI (IC-80403L) AOC seniority next below ANKUSH CHANYAL (IC-80402H) ENGRS whose name appeared in the Gazette of India.

To Be Lts W.E.F 13 Dec 2014

The undermentioned one Gentleman Cadet of 135 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Dec 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ANISH KUMAR SINGH (IC-79980L) INF seniority next below SAURABH MISHRA (IC-79979W) INF whose name appeared in the Gazette of India.

ABHISHEK TEWARY

Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

No .56, dated 8th Febraury 2017—The President is pleased to make the following appointments:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To Be LTS W.E.F 13 Dec 2014)

The undermentioned Three Gentleman Cadet of 135 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Dec 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ARIBAM OKESHWOR SHARMA (IC-79743F) INF seniority next below CHETAN YADAV (IC-79742Y) SIGS COMMA AKSHAY KUMAR (IC-79848L) ARTY seniority next below W NINGSON KOIRENG (IC-79847H) INF COMMA KULDEEP SINGH (IC-79896L) MECH seniority next below VIVEK KUMAR CHAUHAN (IC-79895H) INF whose name appeared in the Gazette of India.

To Be LTS W.E.F 11 Jun 2016

The undermentioned three Gentleman Cadet of 138 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 11 Jun 2016 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

DIPAK KUMAR KESHARI (IC-81667Y) ARTY seniority next below TIKARAM GURUNG (IC-81666W) INF, COMMA SHIVAM R PATEL (IC-81677H) EME seniority next below PARTH CHATURVEDI (IC-81676A) AOC, COMMA RANJIT KUMAR (IC-81775H) MECH seniority next below APIL KUMAR (IC-81774A) INF, whose name appeared in the Gazette of India.

To Be LTS W.E.F 12 Dec 2015

The undermentioned four Gentleman Cadet of 137 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 12 Dec 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ANANTHU S KUMAR (IC-80939F) INF seniority next below MOHIT MAYANK (IC-80938Y) INF COMMA SUBHASH KUMAR (IC-80972Y) INF seniority next below VINOD KUMAR (IC-80971W) ARTY COMMA UJJWAL MISHRA (IC-81175A) MECH seniority next below ARSALAN KHAIRUL BASHAR (IC-81174X) ARTY COMMA AJEET MALIK (IC-81209H) ARTY seniority next below PARKHE GAURISH NARAYAN (IC-81208A) ARTY whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned Twelve Gentleman Cadet of 137 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 12 Dec 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

DEEPAK KUMAR YADAV (IC-80962P) MECH seniority next below PRABHU NARAYAN KAPUR (IC-81961M) INF COMMA PIYUSH SUNIL DESHMUKH (IC-80992M) ASC seniority next below ADISH KHAJURIA (IC-80991K) SIGS COMMA RAHUL JAYAPRAKASH (IC-81019W) INF seniority next below BAAZHANG LIMBOO (IC-81018N) INF COMMA SAURABH DESWAL (IC-81085Y) MECH seniority next below DHIRAJ ACHARYA (IC-81084W) ARTY COMMA MANOJ BASERA (IC-81090K) AOC seniority next below SANJAY DUTT (IC-81089P) INF COMMA ABHILASH SHARMA (IC-81092P) ARTY seniority next below BHARAT PRATAP SINGH (IC-81091M) ASC COMMA SANTOSH KUMAR PRADHAN (IC-81109X) ARTY seniority next below MANJINDER SINGH (IC-81108P) AC COMMA K KRISHNA THEJA (IC-81112X) SIGS seniority next below PANKAJ YADAV (IC-81111P) ASC COMMA S ARJUN LINGAM (IC-81128H) INF seniority next below YUVRAJ SINGH (IC-81127A) ARTY COMMA ARMAAN MALIK (IC-81182W) MECH seniority next below DHANANJAY PARMAR (IC-81181N) ARTY COMMA JUGRAJ SINGH (IC-81218K) AAD seniority next below ARUN YADAV (IC-81217F) AC COMMA RAHUL DEV VERMA (IC-81270M) INF seniority next below RAHUL SINGH YADAV (IC-81269X) ARTY whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned one Gentleman Cadet of 137 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 12 Dec 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

GAURAV CHAUDHARY (IC-80969Y) AAD seniority next below SASHANK KUMAR SINGH (IC-80968W) ARTY whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned five Gentleman Cadet of 137 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 12 Dec 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

SUKSHM PANDITA (IC-80926K) INF seniority next below PARDEEP SINGH THAKUR (IC-80925F) INF, VISHAL KATOCH (IC-80950A) ARTY seniority next below MOHIT MALIK (IC-80949L) AOC, SIDDHARTH RATHORE (IC-81026M) ASC seniority next below M.V.N.V SURYA TEJA (IC-81025K) ASC, ABHISHEK DHAMU (IC-81093X) AC seniority next below ABHILASH SHARMA (IC-81092P) ARTY, and MRINAL RAJ MAYANK (IC-81134W) ASC seniority next below DEVRAJ SINGH RAJAWAT (IC-81133N) EME whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned two Gentleman Cadet of 137 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 12 Dec 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

MUDIT SATIJA (IC-81130A) INF seniority next below MRIDUL AGARWAL (IC-81129L) AAD, COMMA ATUL KUMAR SINGH (IC-81238X) ARTY seniority next below RAJINDER SINGH (IC-81237P) INF whose name appeared in the Gazette of India.

TO BE LTS W.E.F 08 Jun 2013

The undermentioned One Gentleman Cadet of 132 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 08 Jun 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

RISHI DWIVEDI (IC-78077P) AAD seniority next below KSHITIZ KAUSHIK (IC-78076M) ASC whose name appeared in the Gazette of India.

PRAKASH KUMAR SINGH
Maj
AMS 8B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 57, dated 9th February 2017—The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientists 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against his name in the Pay Scale of Rs. 15600-39100(Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5400/- :-

S. No.	PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
1.	2013AB1059	Shri G Rakesh	ADE, Bengaluru	23.01.2013
2.	2012AB1012	Shri Suman Kumar	ASL, Hyderabad	08.11.2012
3.	2012AB1025	Shri Nitish Bhaje	CABS, Bengaluru	09.07.2012
4.	2012AB1058	Ms. Kanike Sreelatha	NPOL, Kochi	10.12.2012

The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individual as temporary Scientist 'C' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of one year with effect from the date shown against his name in the Pay Scale of Rs. 15,600-39,100(Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- :-

S. No.	PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
1	2016AC1002	Shri Madhvendra Sharma	HQ_SPIC, Delhi	09.06.2016

RAJEEV RANJAN
Addl. Director/Pers(DRDS-II)

ARMY BRANCH

No. 58, dated 10th February 2017—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major (GD)

SUB RAM MURTI (JC-421082P) 16th Aug 2016
SUB AJAY KUMAR (JC-421110W) 03rd Sep 2016*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Maj wef 01st Sep 2016 without effect on pay and allowances)

SUB RAJINDER SINGH (JC-421483K) 02nd Sep 2016*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Maj wef 01st Sep 2016 without effect on pay and allowances)

SUB SUKHDEEP SINGH (JC-421240Y) 01st Oct 2016
SUB ATTAR SINGH (JC-421536X) 01st Oct 2016

To be Substantive Subedar (GD)

NB SUB ANANDI LAL SHARMA (JC-422085P) 29th Aug 2016*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 13th Jun 2016 without effect on pay and allowances)

NB SUB UDYAVIR OJHA (JC-422518F) 01st Oct 2016

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 18th Jun 2016 without effect on pay and allowances)

NB SUB JITENDRA PRASAD YADAV	(JC-422087A)	27 th Sep 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 30 th Jun 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB SUBHASH CHANDRA SINGH	(JC-422137A)	29 th Aug 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Aug 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB PRASANTA SAMUI	(JC-422228K)	01 st Sep 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Aug 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB VILWANATHAN K	(JC-422244F)	26 th Aug 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Aug 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB LAKSHMI NARAYAN PAL	(JC-421860P)	12 th Sep 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 29 th Aug 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB LAL BAHADUR SINGH	(JC-421942X)	10 th Sep 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Sep 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB G MANI MOORTHY	(JC-422023P)	01 st Sep 2016
NB SUB NEMAI CHANDRA MANDAL	(JC-422089L)	01 st Sep 2016
NB SUB KASTOORI LAL	(JC-422133K)	13 th Sep 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Sep 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB RAJENDRA SINGH	(JC-422164K)	01 st Sep 2016
NB SUB RAM SAGAR PRASAD	(JC-422187L)	01 st Sep 2016
NB SUB HARI YADAW	(JC-422232M)	01 st Sep 2016
NB SUB NAVIN KUMAR MALI	(JC-422191N)	01 st Sep 2016
NB SUB S MAHESHA	(JC-422234X)	01 st Sep 2016
NB SUB P SOORIYAN	(JC-422215M)	01 st Sep 2016
NB SUB SHIV BAHADUR SINGH	(JC-422229M)	01 st Sep 2016
NB SUB NISHITH SAMANTA	(JC-421863H)	01 st Oct 2016
NB SUB MANI MOHANAN TP	(JC-422042A)	01 st Oct 2016
NB SUB BHAGWAN SINGH RAWAT	(JC-422113W)	01 st Oct 2016
NB SUB SANJEEV KUMAR	(JC-422287W)	01 st Oct 2016
NB SUB SUSANTA KUMAR SAHOO	(JC-422270H)	01 st Oct 2016
NB SUB JAICHAND RAMOLA	(JC-422520Y)	03 rd Oct 2016
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Oct 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB ABANEESH KUMAR	(JC-422635M)	01 st Oct 2016
To be Naib Subedar		
HAV MAHESWAR SAHOO	(14921749K Now JC-422997N)	22 nd Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV TANDLE BHAUSAHEB DEORAM	(14920395A Now JC-422998W)	01 st Dec 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 28 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV P RAMESH	(14919483K Now JC-422999Y)	01 st Nov 2016
HAV RAJINDER SINGH	(14919030Y Now JC-423000A)	01 st Nov 2016
HAV TIKA RAM CHETTRI	(14919525L Now JC-423001H)	01 st Nov 2016
HAV MAHINDRA KUMAR	(14922107F Now JC-423002L)	12 th Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		

HAV SUGESH KUMAR NP	(14921163N Now JC-423003N)	11 th Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV SURESH CHANDRA NITHERWAL	(14922137Y Now JC-423004W)	25 th Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV ASA RAM	(14923343P Now JC-423005Y)	15 th Dec 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV TILAK RAJ	(14922346W Now JC-423006F)	26 th Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV SUNANDAN	(14921304X Now JC-423007K)	02 nd Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV MANOJ KUMAR	(14920729K Now JC-423008M)	01 st Nov 2016
HAV PANNA RAM JAT	(14921760H Now JC-423009P)	05 th Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV VED PRAKASH	(14921406N Now JC-423010K)	01 st Nov 2016
HAV YEM BAHADUR CHHETRI	(14921432P Now JC-423011M)	01 st Nov 2016
HAV SUBASH CHAND	(14921993K Now JC-423012P)	02 nd Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV MANIKUTTAN N	(14922165L Now JC-423013X)	03 rd Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV JAI VEER KAUSHIK	(14923572A Now JC-423014A)	07 th Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV SUSHIL KUMAR	(14923978N Now JC-423015H)	09 th Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV MOFIJUL HOQUE	(14921759N Now JC-423016L)	14 th Dec 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV JAI KRISHAN	(14919438X Now JC-423017N)	23 rd Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Nov 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV RAJVEER SINGH	(14923097P Now JC-423018W)	21 st Nov 2016

ARMD CORPS RECORDS

To Be Ris Maj

RISALDAR(DVRAFV)	DHANNA RAM	(No. JC-243540W)	01/11/2016
RISALDAR (DVRAFV)	CHANDRA BHUSHAN	(No. JC-244140W)	01/01/2017
	TIWARI		
RISALDAR (GNRAFV)	RAMESHWAR SINGH	(No. JC-243960W)	01/01/2017
RISALDAR (GNRAFV)	DAVINDER SINGH	(No. JC-244573N)	01/11/2016
RISALDAR (DVRAFV)	AMEDA RAM	(No. JC-244394N)	*18/08/2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS MAJ wef 01/08/2015 without effect on pay and allowances)			
RISALDAR (CLKSD)	DEBABRATA GHOSH	(No. JC-241673N)	01/01/2017
RISALDAR (DVRAFV)	SURESH BABU CG	(No. JC-244263H)	01/11/2016
RISALDAR (OPRAFV)	KULDEEP	(No. JC-244015M)	01/09/2016

RISALDAR (GNRAFV)	JUNED AHMAD	(No. JC-243595A)	01/11/2016
To BE RIS			
NB RISALDAR (OPRAFV)	JAI SINGH GODARA	(No. JC-246705P)	*24/11/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/11/2016 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR (DVRAFV)	RISHIKESH GURJAR	(No. JC-245336W)	01/12/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	DAULAT SINGH	(No. JC-245140H)	01/12/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	JODHA RAM	(No. JC-245513L)	01/11/2016
NB RISALDAR (OPRAFV)	RAVI KARAN SINGH	(No. JC-245312M)	01/11/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	AWADHESH KUMAR	(No. JC-244866Y)	01/11/2016
YADAVA			
NB RISALDAR (CLKSD)	AJAY KUMAR SINGH	(No. JC-246320X)	01/01/2017
NB RISALDAR (CLKSD)	PHOOL BADAN RAM	(No. JC-246322H)	01/01/2017
NB RISALDAR (GNRAFV)	RAJU KUMAR SINGH	(No. JC-245506P)	01/12/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	PRAMOD KUMAR SINGH	(No. JC-245456P)	01/12/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	MANOJ KUMAR	(No. JC-245477L)	*26/11/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 13/11/2016 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR (OPRAFV)	NARESH KUMAR	(No. JC-245682M)	01/12/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	VINAY KUMAR SINGH	(No. JC-245131F)	01/12/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	RAMARAO BATTALA	(No. JC-246173A)	01/12/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	TULAGAPU MADHU	(No. JC-245408P)	*03/11/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 22/10/2016 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR (OPRAFV)	JEETENDER SINGH	(No. JC-245539A)	01/12/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	MITRA PAL	(No. JC-245657N)	01/11/2016
NB RISALDAR (SKT)	UMESH KUMAR	(No. JC-246271A)	*02/02/2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/02/2015 without effect on pay and allowances)			
To be Nb Ris			
DFR(DVRAFV) DEVENDRA YADAV	(No. 15461753H now JC-247322P)		01/01/2017
DFR (DVRAFV) HIRENDER KUMAR	(No. 15468639N now JC-247299M)		01/01/2017
DFR (OPRAFV) ANOD KUMAR	(No. 15468651P now JC-247315Y)		01/01/2017
DFR (DVRAFV) RAJAMANICKAM C	(No15470228N now JC-247319P)		01/01/2017
DFR (CLKSD) SHIV PRAKASH BHAGAT	(No. 15470594X now JC-247308H)		01/01/2017
DFR (CLKSD) PANKAJ KUMAR	(No. 15470866M now JC-247309L)		*02/01/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2017 without effect on pay and allowances)			
DFR (CLKSD) HARENDRA PAL SINGH	(No. 15470898P now JC-247311H)		01/01/2017
DFR (CLKSD) MAHESH KUMAR CHHONKAR	(No. 15470921X now JC-247312L)		01/01/2017
DFR (CLKSD) BIVASH CHANDRA SEN	(No. 15470925N now JC-247329Y)		01/01/2017
DFR (CLKSD) AVDHESH KUMAR	(No. 15470956N now JC-247330N)		01/01/2017
DFR (DVRAFV) ASHOK SINGH	(No. 15471849Y now JC-247346Y)		*31/12/2016
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 21/12/2016 without effect on pay and allowances)			
DFR (DVRAFV) RAJENDER SINGH	(No. 15463567L now JC-247280N)		*26/12/2016
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/11/2016 without effect on pay and allowances)			
DFR (GNRAFV) HITENDR BAHADUR SINGH	(No15464498M now JC-247292H)		01/01/2017
DFR (OPRAFV) KASINATH SARDAR	(No15464760K now JC-247270K)		01/12/2016
DFR (DVRAFV) MAIN PAL	(No. 15464766L now JC-247290X)		01/01/2017
DFR (DVRAFV) P SUNDAR RAJAN	(No15464893A now JC-247324A)		*02/01/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2017 without effect on pay and allowances)			
DFR (OPRAFV) DESH RAJ	(No15466908W now JC-247347F)		01/01/2017
DFR (SKT) ASHOK SINGH	(No15467422X now JC-247313N)		01/01/2017

DFR (GNRAFV) MANOJ KUMAR OLA	(No15468002K now JC-247327N)	01/01/2017
DFR (DVRAFV) AMRIK SINGH	(No. 15468277X now JC-247287X)	01/01/2017
DFR (DVRAFV) ASHOK KUMAR	(No15468427H now JC-247289H)	01/01/2017
DFR (DVRAFV) GURJEET SINGH	(No15468447W now JC-247291A)	01/01/2017

ANURAG SHARMA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 59, dated 13th February 2017—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

(ARMY MEDICAL CORPS)

TO BE NAIB SUBEDAR (LABORATORY ASSISTANT)

HAVILDAR	GOPALAKRISHNAN NAIR T	13959880P	NOW	JC696029P	15092007
(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2007 without effect on pay and Allces)					

A K TEWARI
Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 60, dated 14th February 2017—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh Saroj Kumar Patel, Scientist 'G' & Director Quality, Reliability & Safety, DRDO HQ has been retired from service with effect from 31 Jan 2017 (A/N) and transferred to pension establishment with effect from 01 Feb 2017 (F/N).

RAJEEV RANJAN
Addl. Director (DOP/DRDS-II)

ARMY BRANCH

CORRIGENDA

No. 61, dated 15th February 2017—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lt w.e.f 11 Dec 2010)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 127 Regular Course published in the Gazette of India dated 10 Sep 2011 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is here by amended as under :-

For	PRVEEN RANJAN TIWARI	IC-75053A	INF
Read	PRAVEEN RANJAN TIWARI	IC-75053A	INF

The President is pleased to make the following appointment.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To Be 2/Lt w.e.f 08 Jun 1996)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 98 Regular Course published in the Gazette of India dated 19 Apr 1997 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is here by amended as under :-

For	SHIKAR SOM SINGH	IC-54520Y	INF
Read	SHIKHAR SOM SINGH	IC-54520Y	INF

The President is pleased to make the following appointment.

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(To be 2/Lt w.e.f 15 Dec 1990)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 87 Regular Course published in the Gazette of India dated 26 Sep 1992 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :-

For	PVR SUBRAMANYAM	IC-49936M	ENGRS
Read	PVR SUBRAHMANYAM	IC-49936M	ENGRS

The President is pleased to make the following appointment.

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(To be Lt w.e.f 09 Jun 2007)

In the Gazette Notification with respect to 120 Regular Course published in the Gazette of India, Ministry of Defence in Part I Section IV dated 24 May 2008 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :-

For	SRINIVASA RAO GAVARA	IC-69406X	AOC
Read	SRINIVASA RAO GAVARA	IC-69406Y	AOC

The President is pleased to make the following appointment.

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
To be 2/Lt w.e.f 08 Jun 1991

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 88 Regular Course published in the Gazette of India dated 21 Nov 1992 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :-

For	RENJAY GEORGE	IC-50332A	MECH INF
Read	RENJY GEORGE	IC-50332A	MECH INF

PRAKASH KUMAR SINGH
Maj
AMS 8B

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 62, dated 16th February 2017—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(To be Lt w.e.f 11 Jun 2005)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 116 Regular Course published in the Gazette of India dated 14 Jan 2006 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :-

For	PRAKASH KR SINGH	IC-66928K	ARTY
Read	PRAKASH KUMAR SINGH	IC-66928K	ARTY

ABHISHEK TEWARY
Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 63, dated 17th February 2017—The president is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

In the Ministry of Defence Notification No 253 dated 04 Nov 2016 published in the Gazette of India serial No 51 dated 17 Dec 2016 under heading “Regular Army” Sub heading “The Mechanised Infantry Regiment” below :-

To be Naib Subedar (Religious Teacher Pandit)

For	Sukhendra Kumar Pandey	(JC-422290L)	01 Oct 2016
Read	Sukhendra Kumar Pandey	(JC-422920L)	01 Oct 2016

ANURAG SHARMA
Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in